



## **The Code of Civil Procedure (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2020**

Act No. 12 of 2022

### **Keywords:**

The code of Civil Procedure, 1908

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 194]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 4 मई 2022—वैशाख 14, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 मई, 2022

क्र. 6625-104-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 25 अप्रैल, 2022 को राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १२ सन् २०२२

## सिविल प्रक्रिया संहिता ( मध्यप्रदेश संशोधन ) अधिनियम, २०२०

[ दिनांक २५ अप्रैल, २०२२ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण )" में दिनांक ४ मई, २०२२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम को संक्षिप्त नाम सिविल प्रक्रिया संहिता ( मध्यप्रदेश संशोधन ) अधिनियम, २०२० है.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम १९०८ का ५ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य का लागू हुए रूप में सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ ( १९०८ का ५ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

पहली अनुसूची का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

( १ ) आदेश १८ में,—

( एक ) नियम ४ में,—

( क ) विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“वाणिज्यिक न्यायालय में साक्ष्य लेखबद्ध करना”;

( ख ) उपनियम ( १ ) में, शब्द “प्रत्येक वाद में” के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अंक “कॉमर्सियल कोर्ट एक्ट, २०१५ ( २०१६ का ४ ) की धारा ३ की उपधारा ( १ ) के अधीन गठित वाणिज्यिक न्यायालय में विचारण योग्य किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद के संबंध में किसी वाद में” स्थापित किए जाएं;

( दो ) नियम ४ के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“४-क. नियम ४ में यथा उपबंधित के सिवाय, हाजिर साक्षियों का साक्ष्य खुले न्यायालय में न्यायाधीश की उपस्थिति में और उसके वैयक्तिक निदेशन और अधीक्षण में मौखिक रूप से लिया जाएगा.”.

साक्षियों की परीक्षा खुले न्यायालय में की जाएगी.

आदेश २०-ख का अंतःस्थापन.

( २ ) आदेश २०-क के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“आदेश २०-ख

इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित आदेशों, निर्णयों और डिक्रियों की मान्यता

१. इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित आदेशों, निर्णयों और डिक्रियों की मान्यता.—कोई पारित आदेश, सुनाया गया निर्णय या तैयार की गई डिक्री, जिसका न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है, न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित की गई समझी जाएगी, यदि ऐसा आदेश, निर्णय या डिक्री को ऐसी रीति में, जैसी कि उच्च न्यायालय द्वारा विहित की जाए, न्यायाधीश द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम से अधिप्रमाणित किया गया है.”.

भोपाल, दिनांक 4 मई, 2022

क्र. 6625-104-इक्कीस-अ(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में सिविल प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2020 (क्रमांक 12 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT  
NO. 12 OF 2022

**THE CODE OF CIVIL PROCEDURE (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 2020**

[Received the assent of the President on the 25<sup>th</sup> April, 2022; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 4<sup>th</sup> May, 2022].

An Act further to amend the Code of Civil Procedure, 1908 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-second year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Code of Civil Procedure (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2020. **Short title.**
2. The Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908) (hereinafter referred to as the principal Act) in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided. **Amendment of Central Act V of 1908 in its application to the State of Madhya Pradesh.**
3. In the First Schedule to the principal Act,— **Amendment of First Schedule.**
  - (1) in order XVIII,—
    - (i) in rule 4,
      - (a) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—  
"Recording of evidence in Commercial Court";
      - (b) in sub-rule (1), for the words "In every case", the words, brackets and figures "In any suit in respect of a commercial dispute of a specified value triable in the Commercial Courts constituted under sub-section (1) of Section 3 of the Commercial Courts Act, 2015 (No. 4 of 2016)" shall be substituted;
    - (ii) after rule 4, the following rule shall be inserted, namely:—  
"4-A. Except as provided in rule 4, the evidence of the witnesses in attendance shall be taken orally in open Court in the presence and under the personal direction and superintendence of the Judge." **Witnesses to be examined in open Court.**

Insertion of  
Order XX-B.

(2) After Order XX-A, the following order shall be inserted, namely:—

“ORDER XX-B

RECOGNITION OF ELECTRONICALLY SIGNED ORDERS, JUDGMENTS AND DECREES

Recognition of  
Electronically  
Signed Orders,  
Judgments and  
Decrees.

1. Any order passed, judgment pronounced or decree prepared which is required to be signed by a Judge shall be deemed to have been signed by the Judge, if such order, judgment or decree has been authenticated by means of electronic signature affixed by the Judge in such manner as may be prescribed by the High Court.”.